



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002
Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002
Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402
Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

DRAFT INDIAN STANDARD IN WIDE CIRCULATION

Reference : TED 26(15015)W

Date : 24 December 2021

TECHNICAL COMMITTEE : Automotive Vehicles Running on Non Conventional Energy Sources, TED 26

To,

All concerned

Dear Madam/Sir,

The following document has been prepared by the Automotive Vehicles Running on Non Conventional Energy Sources Sectional Committee, TED 26. Please [click here](#) to view the document.

Document Number : TED 26 (15015) WC

Title of the document : Road vehicles - Compressed natural gas CNG Fuel system components - Current limiting devices

Document Type : Revision of Indian Standard (IS 15723 : 2006)

This document has following salient features which may require specific attention for your valuable comments:

1) ROAD VEHICLES — COMPRESSED NATURAL GAS (CNG) AND LIQUEFIED PETROLEUM GAS (LPG) FUEL SYSTEM COMPONENTS — CURRENT LIMITING DEVICES

Please examine the document and share your comments regarding further improvement in the document.

Last date for sharing the comments is : 22 Feb 2022

The comments should be shared in the prescribed template through this portal only; and the comments so received

shall be taken up by the Sectional Committee for necessary action. For any other query, please write an email at ted@bis.gov.in to the undersigned at Bureau of Indian Standard, Manak Bhawan, 9, Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi.

In case no comments are received, we would presume your approval of the documents. However, in case we receive any comments on the document, the same shall be put up to the Sectional Committee for necessary action.

Thanking You,

Yours faithfully,
(RAJEEV RANJAN SINGH)
Head (Transport Engineering Department)
Email: ted@bis.gov.in



भारतीय मानक ब्यूरो

(उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार)

BUREAU OF INDIAN STANDARDS

(Ministry of Consumer Affairs, Food & Public Distribution, Govt. of India)

मानक भवन, 9 बहादुरशाह जफर मार्ग नई, दिल्ली-110002

Manak Bhavan, 9 Bahadur Shah Zafar Marg, New Delhi-110002

Phones: 23230131 / 23233375 / 23239402

Website: www.bis.org.in, www.bis.gov.in

व्यापक परिचालन में मसौदा(दे)

हमारा सन्दर्भ : TED 26(15015)W

दिनांक : 24-12-2022

तकनीकी समिति : Automotive Vehicles Running on Non Conventional Energy Sources Sectional Committee, TED 26

प्राप्तकर्ता : रूचि रखने वाले सभी निकाय

महोदय/या,

निम्नलिखित मसौदा तैयार किया गया है :

प्रलेख संख्या : TED 26 (15015) WC

शीर्षक : Road vehicles - Compressed natural gas CNG Fuel system components - Current limiting devices

कृपया इस/इन मानक(को)/संशोधन(नो) के मसौदे(दो) का अवलोकन करें और अपनी सम्मतियाँ यह बताते हुए भेजें कि यदि ये मानक(को) के संशोधन(नो) के रूप में प्रकाशित हो तो इन पर अमल करने में आपके व्यवसाय अथवा कारोबार में क्या कठिनाइयां आ सकती हैं।

सम्मतियाँ भेजने की अंतिम तिथि : 22 Feb 2022

सम्मतियाँ, यदि कोई हों तो, कृपया यहाँ क्लिक करके ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से ऊपर दी गयी अंतिम तिथि तक दर्ज कराएं।

यह/ये प्रलेख भारतीय मानक ब्यूरो की वेबसाइट www.bis.gov.in पर भी उपलब्ध है/हैं।

धन्यवाद।

भवदीय/भवदिया,

विभाग प्रमुख का नाम : RAJEEV RANJAN SINGH
(Transport Engineering Department)

ई-मेल : ted@bis.gov.in